

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2017 (वैशाख 30, 1939)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2017 (VAISAKHA 30, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2017

थल सेना विभाग

सं. 77, दिनांक 9 मार्च 2017—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)
कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस—12599एल कप्तान (सुश्री) शिखा सिंह — 21-01-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21-07-2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

11 जून 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)
कमीशन की ज्येष्ठता

डीआर-10741एल कप्तान आशिष गोयल — 23-06-2012

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 23-12-2011 से दी जाती हैं। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रदद किया जाता है।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 78, दिनांक 10 मार्च 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
लेफ्टिनेन्ट के पद पर [परख पर]

श्वेता शर्मा	एम आर-09615-एम	ए.एम.सी	18.03.2015
अंचिता श्रीवास्तव	एम आर-09617-एक्स	ए.एम.सी	18.03.2015
अमनदीप सिंह धालीवाल	एम आर-09624-एन	ए.एम.सी	18.03.2015
जयंत गोवर	एम आर-09629-एम	ए.एम.सी	18.03.2015
शुभांकर तिवारी	एम आर-09634-एक्स	ए.एम.सी	18.03.2015
अनुराग गैरोला	एम आर-09641-एन	ए.एम.सी	18.03.2015
नदीम मोहम्मद अलीम	एम आर-09645-के	ए.एम.सी	18.03.2015
रितु रंजन कुमार	एम आर-09646-एम	ए.एम.सी	18.03.2015
निखिल दीक्षित	एम आर-09648-एक्स	ए.एम.सी	18.03.2015
अभय सिंह	एम आर-09611-डब्ल्यू	ए.एम.सी	18.03.2015
सैकत राँय	एम आर-09613-एफ	ए.एम.सी	18.03.2015
सागर अरोरा	एम आर-09616-पी	ए.एम.सी	18.03.2015
परमजीत	एम आर-09618-ए	ए.एम.सी	18.03.2015
वैभव जैन	एम आर-09619-एच	ए.एम.सी	18.03.2015
पुष्पेंद्र जाखड़	एम आर-09620-एक्स	ए.एम.सी	18.03.2015
आर्यन श्रीनेत	एम आर-09621-ए	ए.एम.सी	18.03.2015

विवेक कुमार	एम आर-09632-एम	ए.एम.सी	18.03.2015
अंकुश धीमान	एम आर-09636-एच	ए.एम.सी	18.03.2015
गौरव यादव	एम आर-09638-एन	ए.एम.सी	18.03.2015
सोहम सेन	एम आर-09607-एन	ए.एम.सी	18.03.2015
करथि किशोर	एम आर-09609-वाई	ए.एम.सी	18.03.2015
कीर्ति मोहनन	एम आर-09614-के	ए.एम.सी	18.03.2015
ज्योत्सना	एम आर-09622-एच	ए.एम.सी	18.03.2015
तूबा मर्यम	एम आर-09626-वाई	ए.एम.सी	18.03.2015
अजय सिंह यादव	एम आर-09628-के	ए.एम.सी	18.03.2015
शिवा चैतन्य सेनापथी	एम आर-09635-ए	ए.एम.सी	18.03.2015
चन्दन कुमार पाणिग्राही	एम आर-09637-एल	ए.एम.सी	18.03.2015
मिलन एस बाबू	एम आर-09639-डब्ल्यू	ए.एम.सी	18.03.2015
अक्षय मिश्रा	एम आर-09610-एन	ए.एम.सी	18.03.2015
चौधरी संपूर्ण राज	एम आर-09627-एफ	ए.एम.सी	18.03.2015
शायना सूद	एम आर-09630-एफ	ए.एम.सी	18.03.2015
पंकज तोमर	एम आर-09647-पी	ए.एम.सी	18.03.2015
हरिकृष्णन पी	एम आर-09529-एफ	ए.एम.सी	27.03.2014
भीष्म बर्थवाल	एम आर-09642- डब्ल्यू	ए.एम.सी	18.03.2015
प्रभजीत सिंह बाथला	एम आर-09623-एल	ए.एम.सी	18.03.2015
अनिर्बन डे	एम आर-09625-डब्ल्यू	ए.एम.सी	18.03.2015
सुमन चटर्जी	एम आर-09640-एल	ए.एम.सी	18.03.2015
सैकत सरकार	एम आर-09643-वाई	ए.एम.सी	18.03.2015
अनीज अली	एम आर-09644-एफ	ए.एम.सी	18.03.2015

फ़्लाइंग अफसर के पद पर [परख पर]

अभिषेक सिंह	एम आर-09568-ए	ए एफ-33680-एच	ए.एम.सी	27.03.2014
-------------	---------------	---------------	---------	------------

सर्जन सब लेफ्टिनेंट के पद पर [परख पर]

जीवा जॉन	एम आर-09608-डब्ल्यू	76303-आर	ए.एम.सी	18.03.2015
जयकृष्णन एस	एम आर-09612-वाई	76332-एफ	ए.एम.सी	18.03.2015
जोर्ज चेरियन अम्बूकेन	एम आर-09560-एन	76260-टी	ए.एम.सी	27.03.2014

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.सं.)

थल सेना विभाग

सं. 79, दिनांक 14 मार्च 2017—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

ले कर्नल से कर्नल (टी एस) के पद पर

निजी संख्या	रैंक	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10453वाई	ले कर्नल	एम प्रकाश	28-08-2016

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10693डब्ल्यू	मेजर	विद्याधरन एस	19-04-2016
डी आर-10609एल	मेजर	अमित जैन	23-04-2016

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थायी कमीशन)

मेजर से ले कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी एस-12130पी	मेजर	रवि शंकर	22-04-2016
डी एस-12138एफ	मेजर	(सुश्री) वीरांजली सावंत	24-06-2016

कैप्टन से मेजर के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	मेजर के पद पर पदोन्नति की तिथि
डी एस-12486एच	कप्तान	ध्रुव शर्मा	09-08-2014
डी एस-12498एक्स	कप्तान	शेदटी गौरव	19-08-2014
डी एस-12389एल	कप्तान	जोर्ज कुट्टी एम तोमस	09-03-2015
डी एस-12564पी	कप्तान	(सुश्री) ऋचा गुप्ता	13-07-2016
डी एस-12566ए	कप्तान	सचिन गुप्ता	13-07-2016

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 80, दिनांक 15 मार्च 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

मुकेश कुमार (एम आर-08063-एक्स), ए एम सी	-	30 दिसम्बर 2015
सीमा प्रकाश (एम आर-08126-पी), ए एम सी	-	09 अगस्त 2016
मोहम्मद तारिक (एम आर-08803-एफ), ए एम सी	-	09 अगस्त 2016
अशोक कुमार (एम आर-08081-ए), ए एम सी	-	30 दिसम्बर 2015
बिजु बाबू (एम आर-08737-के), ए एम सी	-	12 अप्रैल 2016
ऋषि शर्मा (एम आर-08970-एक्स), ए एम सी	-	09 अगस्त 2016
(कु०) वन्दना (एम आर-07865-पी), ए एम सी	-	04 जनवरी 2015
अरुन गुलाटी (एम आर-08799-के), ए एम सी	-	21 मार्च 2014
रजत बहल (एम आर-08075-एम), ए एम सी	-	30 दिसम्बर 2015
कामखंडकर योगेश नंदकुमार (एम आर-09129-पी), ए एम सी	-	06 सितम्बर 2016

कैप्टन से मेजर के पद पर

अवधेश सिंह मलिक (एमआर- 09208 के) एएमसी	-	26 फरवरी 2016
सौरभ माहेश्वरी (एमआर- 09211 के) एएमसी	-	26 फरवरी 2016
रोहित उप्रेति (एमआर- 09743 के) एएमसी	-	21 सितम्बर 2016
मोहित मित्तल (एमआर- 09224 एफ) एएमसी	-	07 अगस्त 2016
विकास चौधरी (एमआर-09263-ए) एएमसी	-	12 अगस्त 2012
बीनाल धुरिया (एमआर- 09039 एन) एएमसी	-	10 फरवरी 2015
अफाक अहमद फारूक (एमआर- 09741-वाई) एएमसी	-	21 सितम्बर 2016
गवांडे अतुल अशोकराव (एमआर- 09300-एच) एएमसी	-	12 अगस्त 2012
सुनील आनन्द (एमआर-08375 एन) एएमसी	-	20 फरवरी 2011
रनजीथ मात्यू वर्गीस (एमआर-08654 वाई) एएमसी	-	01 फरवरी 2013
श्रीनी व्ही नायर (एमआर-09176 एम) एएमसी	-	26 फरवरी 2016
सुनील जुलमारिया (एमआर-08964 के) एएमसी	-	06 सितम्बर 2011
आदित्य पवार (एमआर-09029 के) एएमसी	-	10 फरवरी 2015
पुलकित अग्रवाल (एमआर- 09024-एल) एएमसी	-	10 फरवरी 2015
शिव प्रताप सिंह मेहता (एमआर- 09736एन) एएमसी	-	21 मार्च 2016
मिथुन शर्मा (एमआर- 09227पी) एएमसी	-	07 अगस्त 2016

राहुल गुप्ता	एम एस-16876-एच	एम आर-09670-एच	ए एम सी	22.11.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 19.11.2016 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				

नेहा गुप्ता	एम एस-16701-ए	एम आर -09731-पी	ए एम सी	16.06.2014
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13.02.2016 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				
विक्रान्त	एम एस-16852-वाई	एम आर -09729-एक्स	ए एम सी	29.09.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.05.2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				

कप्तान के पद पर

सत्यजित मिश्रा	एम एस-16781-एच	एम आर -09735-एल	ए एम सी	26.02.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.11.2012 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				

श्वेता शर्मा	एम आर-09615-एम	ए.एम.सी	17.02.2016
अंघिता श्रीवास्तव	एम आर-09617-एक्स	ए.एम.सी	17.02.2016
अमनदीप सिंह धालीवाल	एम आर-09624-एन	ए.एम.सी	17.02.2016
जयंत गोवर	एम आर-09629-एम	ए.एम.सी	17.02.2016
शुभांकर तिवारी	एम आर-09634-एक्स	ए.एम.सी	17.02.2016
अनुराग गैरोला	एम आर-09641-एन	ए.एम.सी	17.02.2016
नदीम मोहम्मद अलीम	एम आर-09645-के	ए.एम.सी	17.02.2016
रितु रंजन कुमार	एम आर-09646-एम	ए.एम.सी	17.02.2016
निखिल दीक्षित	एम आर-09648-एक्स	ए.एम.सी	17.02.2016
अभय सिंह	एम आर-09611-डब्ल्यू	ए.एम.सी	17.02.2016
सैकत रॉय	एम आर-09613-एफ	ए.एम.सी	17.02.2016
सागर अरोरा	एम आर-09616-पी	ए.एम.सी	17.02.2016
परमजीत	एम आर-09618-ए	ए.एम.सी	17.02.2016
वैभव जैन	एम आर-09619-एच	ए.एम.सी	17.02.2016
पुष्पेंद्र जाखड़	एम आर-09620-एक्स	ए.एम.सी	17.02.2016
आर्यन श्रीनेत	एम आर-09621-ए	ए.एम.सी	17.02.2016
विवेक कुमार	एम आर-09632-एम	ए.एम.सी	17.02.2016
अंकुश धीमान	एम आर-09636-एच	ए.एम.सी	17.02.2016
गौरव यादव	एम आर-09638-एन	ए.एम.सी	17.02.2016
सोहम सेन	एम आर-09607-एन	ए.एम.सी	17.02.2016
करथि किशोर	एम आर-09609-वाई	ए.एम.सी	17.02.2016

कीर्ति मोहनन	एम आर-09614-के	ए.एम.सी	17.02.2016
ज्योत्सना	एम आर-09622-एच	ए.एम.सी	17.02.2016
तूबा मर्यम	एम आर-09626-वाई	ए.एम.सी	17.02.2016
अजय सिंह यादव	एम आर-09628-के	ए.एम.सी	17.02.2016
शिवा चैतन्य सेनापथी	एम आर-09635-ए	ए.एम.सी	17.02.2016
चन्दन कुमार पाणिग्राही	एम आर-09637-एल	ए.एम.सी	17.02.2016
मिलन एस बाबू	एम आर-09639-डब्ल्यू	ए.एम.सी	24.03.2016
अक्षय मिश्रा	एम आर-09610-एन	ए.एम.सी	17.02.2016
चौधरी संपूर्ण राज	एम आर-09627-एफ	ए.एम.सी	17.02.2016
शायना सूद	एम आर-09630-एफ	ए.एम.सी	17.02.2016
पंकज तोमर	एम आर-09647-पी	ए.एम.सी	17.02.2016
हरिकृष्णन पी	एम आर-09529-एफ	ए.एम.सी	03.03.2015

प्रियंका राठोर	एम एस-16905 एम	एम आर -09750- ए	ए एम सी	23.02.2013
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.05.2015 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				
शिल्पा जौहरी	एम एस-16904 के	एम आर -09751-एच	ए एम सी	23.02.2013
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.05.2015 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				
पुरुषोत्तम चौधरी	एम एस-16909 एच	एम आर -09752-एल	ए एम सी	23.02.2013
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13.02.2016 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				
वंदना रानी वी	एम एस-16900-एन	एम आर -09753-एन	ए एम सी	23.02.2013
[भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से हैं रद्द किया जाता है]				
सलिल जेना	एम एस-16907 एक्स	एम आर -09749-एल	ए एम सी	23.02.2013
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.05.2015 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]				

प्रभजीत सिंह बाथला	एम आर-09623-एल	ए.एम.सी	17.02.2016
सुमन चटर्जी	एम आर-09640-एल	ए.एम.सी	17.02.2016
भीष्म बर्थवाल	एम आर-09642-डब्ल्यू	ए.एम.सी	17.02.2016
सैकत सरकार	एम आर-09643-वाई	ए.एम.सी	17.02.2016
अनीज अली	एम आर-09644-एफ	ए.एम.सी	17.02.2016

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

कुमार प्रकाश मिश्रा (एमआर-07969- डब्ल्यू) (ए एफ-27636-एच)	-	18 जुलाई 2015
अजय कुमार (एमआर-09084-ए) (ए एफ-27663-एन)	-	11 अगस्त 2016
विनोद सी एन (एमआर-09046-के) (ए एफ-28379-एच)	-	17 मई 2016
रमनजीत सिंह अकाल (एमआर-08745-एच) (ए एफ-28377-ए)	-	17 मई 2016

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

बल्केश रानी (एमआर-09185एन) (ए एफ-31418-जी)	-	26 फरवरी 2016
सन्मीत संधु (एमआर-09649ए) (ए एफ-31413-एच)	-	26 फरवरी 2016
दीपक कुमार (एमआर-09161के) (ए एफ-31414-एल)	-	26 फरवरी 2016
इशा बंसल (एमआर-09166एच) (ए एफ-31416-टी)	-	26 फरवरी 2016
प्रियव्रत समल (एमआर-08986 एच) (ए एफ-30901बी)	-	10 फरवरी 2015
अरुनव शर्मा (एमआर-08987एल) (ए एफ-30902 जी)	-	10 फरवरी 2015
आलोक अंशु (एमआर-09225-के) (ए एफ-32047-टी)	-	07 अगस्त 2016

सर्जन लेफ्ट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

त्रिलोक चन्द्र भट्ट (एमआर-08895-वाई) (75885-आर), एएमसी	-	12 अप्रैल 2016
सिनलकर दत्तात्रेय रामकृष्ण (एमआर-09089-वाई) (75906-एन), एएमसी	-	16 दिसम्बर 2016

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

बिनेश प्रबु बी (एमआर- 09737 डब्ल्यू) (76165-ए), एएमसी	-	21 मार्च 2016
---	---	---------------

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

जोर्ज चेरियन अम्बूकेन	एम आर-09560-एन	76260-टी	ए.एम.सी	03.03.2015
जीवा जॉन	एम आर-09608-डब्ल्यू	76303-आर	ए.एम.सी	17.02.2016
जयकृष्णन एस	एम आर-09612-वाई	76332-एफ	ए.एम.सी	17.02.2016

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.स.)

सं. 81, दिनांक 16 मार्च 2017—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मन्नान पेरुमल पी	(जे सी-420915 एफ)	01 अगस्त 2016
सूबेदार निगम सिंह	(जे सी-421037 एच)	01 अगस्त 2016

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार सुमन्थ कुमार के के (जे सी-421766 एल) 13 जुलाई 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार जमील अहमद (जे सी-421815 एच) 01 अगस्त 2016
- नायब सूबेदार अरविंद कुमार वर्मा (जे सी-421857 पी) 01 अगस्त 2016
- नायब सूबेदार राजेश कुमार सिंह (जे सी-421963 एन) 01 अगस्त 2016
- नायब सूबेदार संजय कुमार उपाध्याय (जे सी-422008 ए) 05 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार अनिल कुमार (जे सी-422029 डब्ल्यू) 11 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जे सी-422030 एल) 04 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार रन बहादुर पाण्डेय (जे सी-422037 पी) 06 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार नंद किशोर सिंह (जे सी-422231 के) 01 अगस्त 2016
- नायब सूबेदार पाटारे अण्णा साहेब नारायण (जे सी-422222 एच) 09 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार सी मधेश (जे सी-422261 एफ) 05 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार राम बहादुर (जे सी-422296 एक्स) 09 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जे सी-422634 के) 01 अगस्त 2016
- नायब सूबेदार सुरेश कुमार अहिरवार (जे सी-421876 ए) 30 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार राम केवल (जे सी-422182 एम) 19 अगस्त 2016 •
- (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अगस्त 2016 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार लक्ष्मा रेड्डी पुरितिपति (14921519 डब्ल्यू अब जे सी-422961 पी) 01 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार वी सुब्बा राज (14921205 पी अब जे सी-422992 पी) 20 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार राम प्रकाश (14919457 एच अब जे सी-422962 एक्स) 28 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार अजय सिंह (14922018 एच अब जे सी-422963 ए) 03 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार राधे श्याम (14921499 एन अब जे सी-422964 एच) 03 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2016 से दी जाती है।)

हवलदार दिना नाथ	(14920219 एच अब जे सी-422965 एल)	14 सितम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार दिनेश कुमार	(14920935 एन अब जे सी-422966 एन)	01 सितम्बर 2016
हवलदार शिवनंदन शर्मा	(14919120 ए अब जे सी-422967 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2016
हवलदार मुकेश कुमार	(14919125 एन अब जे सी-422968 वाई)	01 सितम्बर 2016
हवलदार दर्शन कुमार	(14919059 एफ अब जे सी-422969 एफ)	01 सितम्बर 2016
हवलदार पुरण चंद्र पलई	(14921187 एक्स अब जे सी-422970 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2016
हवलदार संजय कुमार घोष	(14921116 डब्ल्यू अब जे सी-422971 वाई)	05 सितम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार गढावे संजय रामचंद्र	(14922546 एम अब जे सी-422972 एफ)	01 सितम्बर 2016
हवलदार राज पाल	(14922497 पी अब जे सी-422973 के)	01 सितम्बर 2016
हवलदार निकम विजय रामचंद्र	(14923715 पी अब जे सी-422974 एम)	01 सितम्बर 2016
हवलदार प्रदीप कुमार	(14922318 के अब जे सी-422975 पी)	16 सितम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार धर्मेन्द्र सिंह भदोरिया	(14920953 डब्ल्यू अब जे सी-422976 एक्स)	03 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार प्रकाश मजूमदार	(14921624 एम अब जे सी-422977 ए)	01 सितम्बर 2016
हवलदार एस चिटी बाबू	(14921600 एच अब जे सी-422978 एच)	03 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार नरेंद्र पाल	(14920147 के अब जे सी-422979 एल)	20 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार मोहम्मद रफी	(14923244 एम अब जे सी-422980 ए)	27 सितम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार नरुसिंघा चरन दाश	(14923271 डब्ल्यू अब जे सी-422981 एच)	07 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार दुर्गा राम	(14918939 एल अब जे सी-422982 एल)	25 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार उमेश कुमार पाण्डे	(14919195 एक्स अब जे सी-422983 एन)	24 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार सथीश कुमार इ	(14920151 एम अब जे सी-422984 डब्ल्यू)	26 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार आर वेदी	(14919081 एम अब जे सी-422985 वाई)	31 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार यमा वेंकट स्वामी	(14920362 पी अब जे सी-422986 एफ)	24 अक्टूबर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार मारिपे सिम्हाचलम	(14918954 ए अब जे सी-422987 के)	12 नवम्बर 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)		

- हवलदार सेल्वन पी (14923963 एल अब जे सी-422988 एम) 10 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार संजय कुमार मेहता (14922646 एक्स अब जे सी-422989 पी) 25 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार प्रद्युम्न कुमार प्रधान (14923009 के अब जे सी-422990 के) 07 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार परशुरामन एस (14921682 डब्ल्यू अब जे सी-422991 एम) 25 अक्टूबर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)
- हवलदार मनोज कुमार सिंह (14921863 एफ अब जे सी-422993 एक्स) 01 अक्टूबर 2016
- हवलदार सुरेश तिवारी (14921648 डब्ल्यू अब जे सी-422994 ए) 05 नवम्बर 2016 •
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अक्टूबर 2016 से दी जाती है।)

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 82, दिनांक 17 मार्च 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त चिकित्सा कोर के अधिकारियों को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से अल्प स्थाई कमीशन से मुक्त करते हैं तथा उसी तिथि से ही सेना दन्त चिकित्सा कोर में थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन स्थाई कमीशन में नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

अल्पकालीन कमीशन से स्थाई कमीशन में

पद नाम	निजी संख्या	स्थायी कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता
मेजर शनेन्द्र सिंह समब्याल	डीआर-10747एम	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 18-05-2009 से दी जाती है ।
मेजर तपन सिंह	डीआर-10748पी	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 12-08-2009 से दी जाती है ।
मेजर अनंत सिंह	डीआर-10749एक्स	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 05-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर वरुन राणा	डीआर-10750एम	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 07-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर ध्रुव शर्मा	डीआर-10751पी	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 09-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर सम्पन्न चौधरी	डीआर-10752एक्स	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 09-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर शेटी गौरव	डीआर-10753ए	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 19-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर अभिनव शर्मा	डीआर-10754एच	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 12-03-2010 से दी जाती है ।
मेजर (सुश्री) लखवीर कौर	डीआर-10755एल	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-06-2010 से दी जाती है ।

पद नाम	निजी संख्या	स्थाई कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता
मेजर (सुश्री) सुवर्णा सिंह	डीआर-10756एन	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-06-2010 से दी जाती है ।
मेजर (सुश्री) नेहा पराशर	डीआर-10757डब्ल्यू	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 06-09-2010 से दी जाती है ।
मेजर अमित पाराशर	डीआर-10758वाई	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-12-2010 से दी जाती है ।
कप्तान (सुश्री) प्रनीत के राणा	डीआर-10759एफ	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 05-08-2012 से दी जाती है ।
कप्तान दीपक शर्मा	डीआर-10760डब्ल्यू	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 14-02-2013 से दी जाती है ।
कप्तान (सुश्री) शगुन सिंह	डीआर-10761वाई	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 01-06-2013 से दी जाती है ।
कप्तान (सुश्री) हरमनप्रीत अटवाल	डीआर-10762एफ	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है ।
कप्तान किरनदीप सिंह	डीआर-10763 के	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है ।
कप्तान अनुभव चक्रवर्ती	डीआर-10764एम	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-12-2013 से दी जाती है ।
कप्तान राहुल बाहरी	डीआर-10765पी	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 06-03-2014 से दी जाती है ।
कप्तान अदनान अनवर अज़ीज़	डीआर-10766एक्स	22-07-2016 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 06-03-2014 से दी जाती है ।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 83, दिनांक 20 मार्च 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 26-12-2013 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

मीनाक्षी राजपूत	एम एस-16583-एक्स	एम आर -09590-एल	ए एम सी	14 जून 2010
[भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से हैं रद्द किया जाता है]				

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 02-12-2014 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

राहुल गुप्ता	एम एस-16876-एच	एम आर -09670-एच	ए एम सी	22.11.2011
वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22.11.2008 से हो जाएगी [इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी (कान, नाक व घसाशास्त्र) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी]				
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 19.11.2016 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 26.10.2015 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अनिरुद्ध भट्टाचार्य	एम एस-17025 एच	एम आर-09748 एच	ए एम सी	17.11.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.05.2015 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
अनिश शर्मा	एम एस-17009 एल	एम आर-09747 ए	ए एम सी	06.11.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.05.2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
इकरूप कौर सहोता	एम एस-17013 एन	एम आर-09746 एक्स	ए एम सी	06.11.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.05.2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
प्रतीक गोयल	एम एस-16987 ए	एम आर-09740 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.05.2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
रोहित उप्रेति	एम एस-16966 के	एम आर-09743 के	ए एम सी	21.09.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03/08/2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
अफाक अहमद फारूक	एम एस-16980 डब्ल्यू	एम आर-09741 वाई	ए एम सी	21.09.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03/05/2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				

शिव प्रताप सिंह मेहता	एम एस-16958 एल	एम आर-09736 एन	ए एम सी	21.09.2012
वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21.03.2012 से हो जाएगी [इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी]				
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30.08.2014 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
इकजोत सिंह	एम एस-16977 डब्ल्यू	एम आर-09739 एफ	ए एम सी	21.09.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.05.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
विक्रान्त	एम एस-16852 वाई	एम आर-09729 एक्स	ए एम सी	29.09.2011
वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 29/09/2008 से हो जाएगी [इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी]				
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.05.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
नेहा गुप्ता	एम एस-16701 ए	एम आर-09731 पी	ए एम सी	16.06.2010
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.09.2011 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				

लेफ्टिनेंट के पद पर

प्रियंका राठोर	एम एस-16905 एम	एम आर-09750 ए	ए एम सी	16.03.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.05.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
सत्यजित मिश्रा	एम एस-16781-एच	एम आर-09735 एल	ए एम सी	18.03.2011
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.11.2012 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
सलिल जेना	एम एस-16907 एक्स	एम आर-09749 एल	ए एम सी	16.03.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 19.01.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
वंदना रानी वी	एम एस-16900-एन	एम आर-09753 एन	ए एम सी	16.03.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 19.01.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
पुरुषोत्तम चौधरी	एम एस-16909 एच	एम आर-09752 एल	ए एम सी	16.03.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.05.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				
शिल्पा जौहरी	एम एस-16904 के	एम आर-09751 एच	ए एम सी	16.03.2012
[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 21.12.2013 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है]				

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

बिनेश प्रबु बी (76165-ए)	एम एस-76165-ए	एम आर-09737-डब्ल्यू	ए एम सी	21 सितम्बर 2012
वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21 मार्च 2012 से हो जायेगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गयी 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये ही नहीं मानी जायेगी)				
[भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से हैं रद्द किया जाता है]				

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.सं.)

थल सेना विभाग

सं. 84, दिनांक 21 मार्च 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थायी कमीशन)

निवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डी एस-12484एक्स	कप्तान	जप्पीत सिंह	10-06-2016 (प्रातः)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 85, दिनांक 22 मार्च 2017—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

सेवानिवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डी आर-10331पी	कर्नल	एच एस शर्मा	31.07.2016 (सांयः)
डी आर-10392एम	कर्नल (टीएस)	ओ पी मिश्रा	31.07.2016 (सांयः)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 86, दिनांक 23 मार्च 2017—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से निवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी एस-12050एक्स	ले कर्नल	(सुश्री) शीतल लाल	29-02-2016 (सांयः)
डी एस -12404पी	मेजर	नितिन जोशी	29-02-2016 (सांयः)
डी एस-12215एल	मेजर	लाडे श्यामसुन्दर नरसिंहराव	21-03-2016 (सांयः)
डी एस-12064एक्स	ले कर्नल	(सुश्री) गायत्री खरबन्दा	15-04-2016 (सांयः)
डी एस-12066 एच	ले कर्नल	(सुश्री) श्वेता पाठक	20-04-2016 (सांयः)
डी एस-12220डब्ल्यू	मेजर	राजेन्द्र कुमार	03-05-2016 (सांयः)
डी एस -12425एल	मेजर	निलेश पाटिल	10-05-2016 (सांयः)
डी एस-12310एक्स	मेजर	अमित कुमार	13-05-2016 (सांयः)
डी एस-12427डब्ल्यू	मेजर	नरेन्द्र सिंहमार	16-05-2016 (सांयः)
डी एस-12259एच	मेजर	भरत भान	27-05-2016 (सांयः)
डी एस-12235वाई	मेजर	पंकज अरोड़ा	23-07-2016 (सांयः)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

शुद्धि-पत्र

सं. 87, दिनांक 24 मार्च 2017—को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना—सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में : —

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2013

के स्थान पर :—

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12368पी	मेजर श्रीनिवास गौडा. एस टी	03-09-2010

पढ़ा जाए :—

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12368पी	मेजर श्रीनिवास गौडा. एस टी	03-03-2011

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12445वाई	मेजर (सुश्री) रुचि हरीश	21-10-2012
डी एस-12461डब्ल्यू	मेजर चामर्ति सुर्या	02-04-2013
डी एस-12490एल	मेजर आर श्रीनिवासन	12-02-2014
डी एस-12492डब्ल्यू	मेजर तरुण कुमार सिंह	15-02-2014

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12445वाई	मेजर (सुश्री) रुचि हरीश	21-04-2013
डी एस-12461डब्ल्यू	मेजर चामर्ति सुर्या	02-10-2013
डी एस-12490एल	मेजर आर श्रीनिवासन	12-08-2014
डी एस-12492डब्ल्यू	मेजर तरुण कुमार सिंह	15-08-2014

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12415एफ	मेजर भूषण कुमार	17-03-12

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12415एफ	मेजर भूषण कुमार	17-09-12

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12430डब्ल्यू	मेजर नितिन यादव	10-08-2012

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12430डब्ल्यू	मेजर नितिन यादव	10-02-2013

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12458डब्ल्यू	कप्तान आशिष भल्ला	27-03-2013
डी एस-12468ए	कप्तान शनेन्द्र सिंह समब्याल	18-05-2013
डी एस-12512वाई	कप्तान प्रियंक गुप्ता	14-03-2014

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12458डब्ल्यू	कप्तान आशिष भल्ला	27-09-2013
डी एस-12468ए	कप्तान शनेन्द्र सिंह समब्याल	18-11-2013
डी एस-12512वाई	कप्तान प्रियंक गुप्ता	14-09-2014

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना – सैनिक दन्त चिकित्सा कोर स्थाई कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में : –

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर.10694वाई (डीएस-12391एच)	मेजर प्रमोद कुमार	13-09-2011
डी आर-10707एल (डी एस-12377डब्ल्यू)	मेजर पीयूष पाठक	28-08-2011
डीआर-10727वाई (डी एस-12420एम)	मेजर अनुभव शिवपुरी	27-04-2012
डीआर-10730वाई (डी एस-12476वाई)	मेजर (सुश्री) कीर्ति शर्मा	09-07-2013

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10707एल (डी एस-12377डब्ल्यू)	मेजर पीयूष पाठक	28-02-2012
डीआर.10694वाई	मेजर प्रमोद कुमार	13-03-2012
डीआर-10727वाई (डी एस-12420एम)	मेजर अनुभव शिवपुरी	27-10-2012
डीआर-10730वाई (डी एस-12476वाई)	मेजर (सुश्री) कीर्ति शर्मा	09-01-2014

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर-10728एफ (डी एस-12466पी)	मेजर रवि कांत चिंताला	17-04-2013

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर-10728एफ (डी एस-12466पी)	मेजर रवि कांत चिंताला	17-10-2013

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2015

के स्थान पर :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर.10729के (डी एस-12469एच)	मेजर अंकुर ठकराल	18-05-2013

पढ़ा जाए :-

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर.10729के (डी एस-12469एच)	मेजर अंकुर ठकराल	18-11-2013

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th May 2017

ARMY BRANCH

No. 77, dated 9th March 2017—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT SERVICE COMMISSION)

ANTEDATE OF COMMISSION

DS-12599L Capt (Ms) Shikha Singh - 21-01-2016

With seniority for pay and promotion from 21-07-2015 (includes 06 months antedate for holding appointment as Lecturer in Vaidik Dental College & Research Centre, Daman from 17-02-2014 to 08-10-2014, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 11 Jun 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended:-

DR-10741L Capt Ashish Goyal - 23-06-2012

With seniority for pay and promotion from 23-12-2011 (includes 06 months antedate for holding appointment as Lecturer in Krishna Dental College, Ghaziabad (UP) for the period from 01-11-2011 to 20-06-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

H S SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 78, dated 10th March 2017—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Prob)

SHWETA SHARMA	MR-09615-M	AMC	18 MAR 2015
ANCHITA SRIVASTAVA	MR-09617-X	AMC	18 MAR 2015
AMANDEEP SINGH DHALIWAL	MR-09624-N	AMC	18 MAR 2015
JAYANT GROVER	MR-09629-M	AMC	18 MAR 2015
SHUBHANKAR TIWARI	MR-09634-X	AMC	18 MAR 2015
ANURAG GAIROLA	MR-09641-N	AMC	18 MAR 2015
NADEEM MOHAMMAD ALIM	MR-09645-K	AMC	18 MAR 2015
RITU RANJAN KUMAR	MR-09646-M	AMC	18 MAR 2015
NIKHIL DIXIT	MR-09648-X	AMC	18 MAR 2015
ABHAY SINGH	MR-09611-W	AMC	18 MAR 2015
SAIKAT ROY	MR-09613-F	AMC	18 MAR 2015

SAGAR ARORA	MR-09616-P	AMC	18 MAR 2015
PARMJIT	MR-09618-A	AMC	18 MAR 2015
VAIBHAV JAIN	MR-09619-H	AMC	18 MAR 2015
PUSHPENDRA JAKHAR	MR-09620-X	AMC	18 MAR 2015
ARYAN SRINET	MR-09621-A	AMC	18 MAR 2015
VIVEK KUMAR	MR-09632-M	AMC	18 MAR 2015
ANKUSH DHIMAN	MR-09636-H	AMC	18 MAR 2015
GAURAV YADAV	MR-09638-N	AMC	18 MAR 2015
SOHAM SEN	MR-09607-N	AMC	18 MAR 2015
KARTHI KISHORE	MR-09609-Y	AMC	18 MAR 2015
KIRTI MOHANAN	MR-09614-K	AMC	18 MAR 2015
JYOTSNA	MR-09622-H	AMC	18 MAR 2015
TOOBA MARYAM	MR-09626-Y	AMC	18 MAR 2015
AJAY SINGH YADAV	MR-09628-K	AMC	18 MAR 2015
SIVA CHAITANYA SENAPATHI	MR-09635-A	AMC	18 MAR 2015
CHANDAN KUMAR PANIGRAHI	MR-09637-L	AMC	18 MAR 2015
MILAN S BABU	MR-09639-W	AMC	18 MAR 2015
AKSHAY MISRA	MR-09610-N	AMC	18 MAR 2015
CHOUDHARY SAMPOORNA RAJ	MR-09627-F	AMC	18 MAR 2015
SHAYANA SOOD	MR-09630-F	AMC	18 MAR 2015
PANKAJ TOMAR	MR-09647-P	AMC	18 MAR 2015
Harikrishnan P	MR-09529-F	AMC	27 MAR 2014
BHISHM BARTHWAL	MR-09642-W	AMC	18 MAR 2015
PRABHJEET SINGH BATHLA	MR-09623-L	AMC	18 MAR 2015
ANIRBAN DE	MR-09625-W	AMC	18 MAR 2015
SUMAN CHATTERJEE	MR-09640-L	AMC	18 MAR 2015
SAIKAT SARKAR	MR-09643-Y	AMC	18 MAR 2015
ANEEZ ALI	MR-09644-F	AMC	18 MAR 2015

To be Fg Offr (On Prob)

ABHISHEK SINGH	MR-09568-A	AF-33680-H	AMC	27 MAR 2014
----------------	------------	------------	-----	-------------

To be Surg Sub Lt (On Prob)

JEEVA JOHN	MR-09608-W	76303-R	AMC	18 MAR 2015
JAYAKRISHNAN S	MR-09612-Y	76332-F	AMC	18 MAR 2015
GEORGE CHERIAN AMBOOKEN	MR-09560N	76260-T	AMC	27 MAR 2014

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 79, dated 14th March 2017—The President is pleased to make the following promotions (PC) under AI 37/78, as amended:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
Lt Col To be Col (TS)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10453Y	Lt Col	M Prakash	28-08-2016

PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

Per No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10693W	Maj	Vidhyadharan S	19-04-2016
DR-10609L	Maj	Amit Jain	23-04-2016

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
Promotion from Maj to Lt Col

Per No	Rank	Name	Date of Promotion
DS-12130P	Maj	Ravi Shankar	22-04-2016
DS-12138F	Maj	(Ms) Veeranjali Sawant	24-06-2016

Capt to be Major

Pers No	Rank	Name	Date of promotion to the rank of Maj
DS-12486H	Capt	Dhruv Sharma	09-08-2014
DS-12498X	Capt	Shetty Gaurav	19-08-2014
DS-12389L	Capt	Geroge Kutty M Thomas	09-03-2015
DS-12564P	Capt	(Ms) Richa Gupta	13-07-2016
DS-12566A	Capt	Sachin Gupta	13-07-2016

H S SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 80, dated 15th March 2017—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Major to be Lt Col

Mukesh Kumar (MR-08063-X), AMC	-	30 Dec 2015
Seema Prakash (MR-08126-P), AMC	-	09 Aug 2016

Mohammad Tariq (MR-08803-F), AMC	-	09 Aug 2016
Ashok Kumar (MR-08081-A), AMC	-	30 Dec 2015
Biju Babu (MR-08737-K), AMC	-	12 Apr 2016
Rishi Sharma (MR-08970-X), AMC	-	09 Aug 2016
Km Vandana (MR-07865-P), AMC	-	04 Jan 2015
Arun Gulati (MR-08799-K), AMC	-	21 Mar 2014
Rajat Bahl (MR-08075-M), AMC	-	30 Dec 2015
Kamkhedkar Yogesh Nandkumar (MR-09129-P), AMC	-	06 Sep 2016

Capt to be Major

Avadhesh Singh Malik (MR-09208-K), AMC	-	26 Feb 2016
Saurabh Maheshwari (MR-09211-K), AMC	-	26 Feb 2016
Rohit Upreti (MR-09743-K), AMC	-	21 Sep 2016
Mohit Mittal (MR-09224-F), AMC	-	07 Aug 2016
Vikas Chaudhary (MR-09263A), AMC	-	12 Aug 2012
Beenal Dhooria (MR-09039-N), AMC	-	10 Feb 2015
Afaq Ahmed Farook (MR-09741-Y), AMC	-	21 Sep 2016
Gawande Atul Ashokrao (MR-09300-H), AMC	-	12 Aug 2012
Sunil Anand (MR-08375N), AMC	-	20 Feb 2011
Ranjith Mathew Verghese (MR-08654Y), AMC	-	01 Feb 2013
Sreeni V Nair (MR-09176M), AMC	-	26 Feb 2016
Sunil Julmaria (MR-08964K), AMC	-	06 Sep 2011
Aditya Pawar (MR-09029K), AMC	-	10 Feb 2015
Pulkit Agarwal (MR-09024-L), AMC	-	10 Feb 2015
Shiv Pratap Singh Mehta (MR-09736-N), AMC	-	21 Mar 2016
Mithun Sharma (MR-09227-P), AMC	-	07 Aug 2016

To be Major

RAHUL GUPTA	MS-16876-H	MR-09670-H	AMC	22.11.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 19 Nov 2016, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
NEHA GUPTA	MS-16701-A	MR-09731-P	AMC	16.06.2014
(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Feb 2016 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
VIKRANT	MS-16852-Y	MR-09729-X	AMC	29.09.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.05.2014, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

To be Capt

SATYAJIT MISHRA	MS-16781-H	MR-09735-L	AMC	26.02.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.11.2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
SHWETA SHARMA		MR-09615-M	AMC	17 FEB 2016
ANCHITA SRIVASTAVA		MR-09617-X	AMC	17 FEB 2016

AMANDEEP SINGH DHALIWAL	MR-09624-N	AMC	17 FEB 2016
JAYANT GROVER	MR-09629-M	AMC	17 FEB 2016
SHUBHANKAR TIWARI	MR-09634-X	AMC	17 FEB 2016
ANURAG GAIROLA	MR-09641-N	AMC	17 FEB 2016
NADEEM MOHAMMAD ALIM	MR-09645-K	AMC	17 FEB 2016
RITU RANJAN KUMAR	MR-09646-M	AMC	17 FEB 2016
NIKHIL DIXIT	MR-09648-X	AMC	17 FEB 2016
ABHAY SINGH	MR-09611-W	AMC	17 FEB 2016
SAIKAT ROY	MR-09613-F	AMC	17 FEB 2016
SAGAR ARORA	MR-09616-P	AMC	17 FEB 2016
PARMJIT	MR-09618-A	AMC	17 FEB 2016
VAIBHAV JAIN	MR-09619-H	AMC	17 FEB 2016
PUSHPENDRA JAKHAR	MR-09620-X	AMC	17 FEB 2016
ARYAN SRINET	MR-09621-A	AMC	17 FEB 2016
VIVEK KUMAR	MR-09632-M	AMC	17 FEB 2016
ANKUSH DHIMAN	MR-09636-H	AMC	17 FEB 2016
GAURAV YADAV	MR-09638-N	AMC	17 FEB 2016
SOHAM SEN	MR-09607-N	AMC	17 FEB 2016
KARTHI KISHORE	MR-09609-Y	AMC	17 FEB 2016
KIRTI MOHANAN	MR-09614-K	AMC	17 FEB 2016
JYOTSNA	MR-09622-H	AMC	17 FEB 2016
TOOBA MARYAM	MR-09626-Y	AMC	17 FEB 2016
AJAY SINGH YADAV	MR-09628-K	AMC	17 FEB 2016
SIVA CHAITANYA SENAPATHI	MR-09635-A	AMC	17 FEB 2016
CHANDAN KUMAR PANIGRAHI	MR-09637-L	AMC	17 FEB 2016
MILAN S BABU	MR-09639-W	AMC	24 MAR 2016
AKSHAY MISRA	MR-09610-N	AMC	17 FEB 2016
CHOUDHARY SAMPOORNA RAJ	MR-09627-F	AMC	17 FEB 2016
SHAYANA SOOD	MR-09630-F	AMC	17 FEB 2016
PANKAJ TOMAR	MR-09647-P	AMC	17 FEB 2016
Harikrishnan P	MR-09529-F	AMC	03 MAR 2015

PRIYANKA RATHORE	MS-16905M	MR-09750-A	AMC	23.02. 2013
(MoD Notification published in Gazette of India dated 09.05.2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
SHILPA JAUHARI	MS-16904M	MR-09751-H	AMC	23.02. 2013
(MoD Notification published in Gazette of India dated 09.05.2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
PURUSHOTTAM CHAUDHARI	MS-16909-H	MR-09752-L	AMC	23.02. 2013
(MoD Notification published in Gazette of India dated 13.02.2016 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

VANDANA RANI V	MS-16900-N	MR-09753-N	AMC	23.02. 2013
(MoD Notification published in Gazette of India in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
SALIL JENA	MS-16907X	MR-09749-L	AMC	23.02. 2013
(MoD Notification published in Gazette of India dated 09.05.2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

PRABHJEET SINGH BATHLA	MR-09623-L	AMC	17 FEB 2016
SUMAN CHATTERJEE	MR-09640-L	AMC	17 FEB 2016
BHISHM BARTHWAL	MR-09642-W	AMC	17 FEB 2016
SAIKAT SARKAR	MR-09643-Y	AMC	17 FEB 2016
ANEEZ ALI	MR-09644-F	AMC	17 FEB 2016

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Kumar Prakash Mishra (MR-07969W) (AF-27636-H), AMC	-	18 Jul 2015
Ajay Kumar (MR-09084-A) (AF-27663-N), AMC	-	11 Aug 2016
Vinod CN (MR-09046-K) (AF-28379-H), AMC	-	17 May 2016
Ramanjit Singh Akal (MR-08745-H) (AF-28377-A), AMC	-	17 May 2016

Flt Lt to be Sqn Ldr

Balkesh Rani (MR-09185-N) (AF-31418-G), AMC	-	26 Feb 2016
Sunmeet Sandhu (MR-09649-A) (AF-31413-H), AMC	-	26 Feb 2016
Deepak Kumar (MR-09161-K) (AF-31414-L), AMC	-	26 Feb 2016
Isha Bansal (MR-09166-H) (AF-31416-T), AMC	-	26 Feb 2016
Priyabrata Samal (MR-08986H) (AF-30901B), AMC	-	10 Feb 2015
Arunav Sharma (MR-08987L) (AF-30902G), AMC	-	10 Feb 2015
Alok Anshu (MR-09225-K) (AF-32047-T), AMC	-	07 Aug 2016

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Trilok Chandra Bhatt (MR-08895-Y) (75885-R), AMC	-	12 Apr 2016
Sinalkar Dattatraya Ramkrishna (MR-09089-Y) (75906-N), AMC	-	16 Dec 2016

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Binesh Prabu B (MR-09737-W) (76165-A), AMC	-	21 Mar 2016
--	---	-------------

To be Surg Lt

GEORGE CHERIAN AMBOOKEN	MR-09560N	76260-T	AMC	03 MAR 2015
JEEVA JOHN	MR-09608-W	76303-R		17 FEB 2016
JAYAKRISHNAN S	MR-09612-Y	76332-F		17 FEB 2016

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 81, dated 16th March 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB MANNAN PERUMAL P	(JC-420915F)	01 st Aug 2016
SUB NIGAM SINGH	(JC-421037H)	01 st Aug 2016

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB SUMANTH KUMAR KK	(JC-421766L)	13 th Jul 2016*
-------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB JAMIL AHMAD	(JC-421815H)	01 st Aug 2016
--------------------	--------------	---------------------------

NB SUB ARVIND KUMAR VERMA	(JC-421857P)	01 st Aug 2016
---------------------------	--------------	---------------------------

NB SUB RAJESH KUMAR SINGH	(JC-421963N)	01 st Aug 2016
---------------------------	--------------	---------------------------

NB SUB SANJAI KUMAR UPADHYAY	(JC-422008A)	05 th Aug 2016*
------------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB ANIL KUMAR	(JC-422029W)	11 th Aug 2016*
-------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB BALWANT SINGH	(JC-422030L)	04 th Aug 2016*
----------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB RAN BAHADUR PANDEY	(JC-422037P)	06 th Aug 2016*
---------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB NAND KISHORE SINGH	(JC-422231K)	01 st Aug 2016
---------------------------	--------------	---------------------------

NB SUB PATARE ANNA SAHEB NARAYAN	(JC-422222H)	09 ^h Aug 2016*
----------------------------------	--------------	---------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB C MADHESH	(JC-422261F)	05 th Aug 2016*
------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB RAM BAHADUR	(JC-422296X)	09 th Aug 2016*
--------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB GURDIP SINGH	(JC-422634K)	01 st Aug 2016
---------------------	--------------	---------------------------

NB SUB SURESH KUMAR AHIRWAR	(JC-421876A)	30 th Aug 2016*
-----------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 13th Aug 2016 without effect on pay and allowances)

NB SUB RAM KEWAL	(JC-422182M)	19 th Aug 2016*
------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 16th Aug 2016 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar

HAV LAKSHMA REDDY PURITIPATI	(14921519W Now JC-422961P)	01 st Nov 2016*
------------------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allowances)

HAV V SUBBA RAJ	(14921205P Now JC-422992P)	20 th Oct 2016*
-----------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 18 Jun 2016 without effect on pay and allowances)

HAV RAM PRAKASH	(14919457H Now JC-422962X)	28 th Oct 2016*
-----------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Aug 2016 without effect on pay and allowances)

HAV AJAI SINGH	(14922018H Now JC-422963A)	03 rd Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV RADHEY SHYAM	(14921499N Now JC-422964H)	03 rd Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DINA NATH	(14920219H Now JC-422965L)	14 th Sep 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Aug 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DINESH KUMAR	(14920935N Now JC-422966N)	01 st Sep 2016
HAV SHIVNANDAN SHARMA	(14919120A Now JC-422967W)	01 st Sep 2016
HAV MUKESH KUMAR	(14919025N Now JC-422968Y)	01 st Sep 2016
HAV DARSHAN KUMAR	(14919059F Now JC-422969F)	01 st Sep 2016
HAV PURNA CHANDRA PALAI	(14921187X Now JC-422970W)	01 st Sep 2016
HAV SANTOSH KUMAR GHOSH	(14921116W Now JC-422971Y)	05 th Sep 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV GADHAVE SANJAY RAMCHANDRA	(14922546M Now JC-422972F)	01 st Sep 2016
HAV RAJ PAL	(14922497P Now JC-422973K)	01 st Sep 2016
HAV NIKAM VIJAY RAMCHANDRA	(14923715P Now JC-422974M)	01 st Sep 2016
HAV PRADEEP KUMAR	(14922318K Now JC-422975P)	16 th Sep 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DHARMENDRA SINGH BHADORIYA	(14920953W Now JC-422976X)	03 rd Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV PRAKASH MAZUMDAR	(14921624M Now JC-422977A)	01 st Sep 2016
HAV S CHITI BABU	(14921600H Now JC-422978H)	03 rd Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV NARENDER PAL	(14920147K Now JC-422979L)	20 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV MOHAMMED RAFI	(14923244M Now JC-422980A)	27 th Sep 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV NRUSINGHA CHARAN DASH	(14923271W Now JC-422981H)	07 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 30 Sep 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DURGA RAM	(14918939L Now JC-422982L)	25 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV UMESH KUMAR PANDEY	(14919195X Now JC-422983N)	24 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SATHEESH KUMAR E	(14920151M Now JC-422984W)	26 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV R VEDI	(14919081M Now JC-422985Y)	31 st Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV YAMA VENKATA SWAMY	(14920362P Now JC-422986F)	24 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		

HAV MARIPE SIMHACHALAM	(14918954A Now JC-422987K)	12 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SELVAN P	(14923963L Now JC-422988M)	10 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SANJAY KUMAR MEHTA	(14922646X Now JC-422989P)	25 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV PRADYUMNA KUMAR PRADHAN	(14923209K Now JC-422990K)	07 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV PARASURAMAN S	(14921682W Now JC-422991M)	25 th Oct 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV MANOJ KUMAR SINGH	(14921863F Now JC-422993X)	01 st Oct 2016
HAV SURESH TIWARI	(14921648W Now JC-422994A)	05 th Nov 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 09 Oct 2016 without effect on pay and allowances)		

ANURAG SHARMA
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 82, dated 17th March 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 22 Jul 2016 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Short Service Commission to Permanent Commission

Rank & Name	Number	Date of PC with date of seniority
Maj Shanender Singh Sambyal	DR-10747M	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 18-05-2009.
Maj Tapan Singh	DR-10748P	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 12-08-2009.
Maj Anant Singh	DR-10749X	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 05-02-2010.
Maj Varun Rana	DR-10750M	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 07-02-2010.
Maj Dhruv Sharma	DR-10751P	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 09-02-2010.
Maj Sampann Chowdhry	DR-10752X	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 09-02-2010.
Maj Shetty Gaurav	DR-10753A	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 19-02-2010.
Maj Abhinav Sharma	DR-10754H	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 12-03-2010.
Maj (Ms.) Lakhveer Kaur	DR-10755L	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-06-2010.
Maj (Ms.) Suvarna Singh	DR-10756N	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-06-2010.

Maj (Ms.) Neha Prashar	DR-10757W	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 06-09-2010.
Maj Amit Parashar	DR-10758Y	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-12-2010.
Capt (Ms.) Praneet K Rana	DR-10759F	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 05-08-2012.
Capt Deepak Sharma	DR-10760W	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 14-02-2013.
Capt (Ms.) Shagun Singh	DR-10761Y	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 01-06-2013.
Capt (Ms.) Harmanpreet Atwal	DR-10762F	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-06-2013.
Capt Kirandeep Singh	DR-10763K	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-06-2013.
Capt Anubhav Chakrabarty	DR-10764M	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 27-12-2013.
Capt Rahul Bahri	DR-10765P	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 06-03-2014.
Capt Adnan Anwer Aziz	DR-10766X	22-07-16 with seniority for pay, promotion and pension wef 06-03-2014.

H S SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 83, dated 20th March 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps on 26 Dec 2013 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

MEENAKASHI RAJPUT	MS-16583X	MR-09590L	AMC	14 Jun 2010
(Ministry of Defence notification published in Gazette of India in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 02 Dec 2014 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

RAHUL GUPTA	MS-16876-H	MR-09670-H	AMC	22.11.2011
With seniority for pay and promotion from 22.11.2008, this includes 36 months antedate for Master of Surgery (ENT) which will not count for gratuity.				
(MoD Notification published in Gazette of India dated 19 Nov 2016, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 26 Oct 2015 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Capt

ANIRUDDHA BHATTACHARJEE	MS-17025H	MR-09748-H	AMC	17.11.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 09.05.2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
ANISH SHARMA	MS-17009-L	MR-09747A	AMC	06.11.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.05.2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
IKROOP KAUR SAHOTA	MS-17013N	MR-09746X	AMC	06.11.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.05.2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
PRATEEK GOEL	MS-16987A	MR-09740W	AMC	21.09.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.05.2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
Rohit Upreti	MS-16966-K	MR-09743-K	AMC	21 Sep 2012

(Ministry of Defence notification published 03 Aug 2014 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Afaq Ahmed Farook	MS-16980-W	MR-09741-Y	AMC	21 Sep 2012
-------------------	------------	------------	-----	-------------

(Ministry of Defence notification published 03 May 2014 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SHIV PRATAP SINGH MEHTA	MS-16958-L	MR-09736-N	AMC	21.09.2012
With seniority for pay and promotion from 21.03.2012, this includes 06 months antedate for for hospital appointment which will not count for gratuity.				
(MoD Notification published in Gazette of India dated 30.08.2014, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
IKJOT SINGH	MS-16977W	MR-09739F	AMC	21.09.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.05.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
VIKRANT	MS-16852-Y	MR-09729-X	AMC	29.09.2011
With seniority for pay and promotion from 29.09.2008, this includes 36 months for Master of Surgery (General Surgery) which will not count for gratuity.				
(MoD Notification published in Gazette of India dated 04.05.2013, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
NEHA GUPTA	MS-16701-A	MR-09731-P	AMC	16.06.2010
(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Sep 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

To be Lt

PRIYANKA RATHORE	MS-16905M	MR-09750-A	AMC	16 MAR 2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 04.05.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
SATYAJIT MISHRA	MS-16781-H	MR-09735-L	AMC	18 MAR 2011
(MoD Notification published in Gazette of India dated 03.11.2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

SALIL JENA	MS-16907X	MR-09749-L	AMC	16 MAR 2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 19.01.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
VANDANA RANI V	MS-16900-N	MR-09753-N	AMC	16.03.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 19.01.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
PURUSHOTTAM CHAUDHARI	MS-16909-H	MR-09752-L	AMC	16.03.2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 04.05.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				
SHILPA JAUHARI	MS-16904M	MR-09751-H	AMC	16 MAR 2012
(MoD Notification published in Gazette of India dated 21.12.2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).				

TO BE SURG LT

Binesh Prabu B (76165-A)	MS-16976-N	MR-09737-W	AMC	21 Sep 2012
--------------------------	------------	------------	-----	-------------

With seniority for pay and promotion from 21 Mar 2012. This includes 06 months antedate for Hospital Appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS(HR)

ARMY BRANCH

No. 84, dated 21st March 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 15/79 :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RESIGNATION

Personal No	Rank	Name	Date of resignation
DS-12484X	Maj	Jappreet Singh	10-06-2016 (FN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 85, dated 22nd March 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
RETIREMENT

Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
DR-10331P	Col	HS Sharma	31-07-2016 (AN)
DR-10392M	Col (TS)	OP Mishra	31-07-2016 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 86, dated 23rd March 2017—The President is pleased to release the undermentioned Officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names under AI 15/79.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

RELEASE

Pers No	Rank	Name	Date of Release
DS-12050X	Lt Col	(Ms) Sheetal Lal	29 Feb 16 (AN)
DS-12404P	Maj	Nitin Joshi	29 Feb 16 (AN)
DS-12215L	Maj	Lade Shyamsundar Narsingrao	21 Mar 16 (AN)
DS-12064X	Lt Col	(Ms) Gayatri Kharbanda	15 Apr 16 (AN)
DS-12066H	Lt Col	(Ms) Shveta Pathak	20 Apr 16 (AN)
DS-12220W	Maj	Rajendra Kumar	03 May 16(AN)
DS-12425L	Capt	Nilesh Patil	10 May 16 (AN)
DS-12310X	Maj	Amit Kumar	13 May 16 (AN)
DS-12427W	Maj	Narender Sinhmar	16 May 16 (AN)
DS-12259H	Maj	Bharat Bhan	27 May 16 (AN)
DS-12235Y	Maj	Pankaj Arora	23 Jul 2016 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 87, dated 24th March 2017—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer:—

GN PUBLISHED ON 21 NOV 2013

FOR

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DS-12368P	Maj Srinivasa Gowda ST	03-09-2010

READ

DS-12368P	Maj Srinivasa Gowda ST	03-03-2011
-----------	------------------------	------------

GN PUBLISHED ON 28 FEB 2015

FOR:

DS-12445Y	Maj (Ms) Ruchi Harish	21-10-2012
DS-12461W	Maj Chamarthi Surya	02-04-2013
DS-12490L	Maj R Srinivasan	12-02-2014
DS-12492W	Maj Tarun Kumar Singh	15-02-2014

READ:

DS-12445Y	Maj (Ms) Ruchi Harish	21-04-2013
DS-12461W	Maj Chamarthi Surya	02-10-2013
DS-12490L	Maj R Srinivasan	12-08-2014
DS-12492W	Maj Tarun Kumar Singh	15-08-2014

GN PUBLISHED ON 12 SEP 2015

FOR:

DS-12415F	Maj Bhushan Kumar	17-03-2012
-----------	-------------------	------------

READ:

DS-12415F	Maj Bhushan Kumar	17-09-2012
-----------	-------------------	------------

GN PUBLISHED ON 16 MAY 2015

FOR

DS-12430W	Maj Nitin Yadav	10-08-2012
-----------	-----------------	------------

READ

DS-12430W	Maj Nitin Yadav	10-02-2013
-----------	-----------------	------------

GN PUBLISHED ON 07 FEB 2015

FOR:

DS-12458W	Maj Ashish Bhalla	27-03-13
DS-12468A	Maj Shanender Singh Sambyal	18-05-13
DS-12512Y	Maj Priyank Gupta	14-03-14

READ:

DS-12458W	Maj Ashish Bhalla	27-09-13
DS-12468A	Maj Shanender Singh Sambyal	18-11-13
DS-12512Y	Maj Priyank Gupta	14-09-14

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, under the heading REGULAR ARMY, ARMY DENTAL CORPS, PERMANENT COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer:—

GN Published on 28 Feb 2015

FOR:

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10694Y (DS-12391H)	Maj Pramod Kumar	13-09-2011
DR-10707L (DS-12377W)	Maj Peeyush Pathak	28-08-2011
DR-10727Y (DS-12420M)	Maj Anubhav Shivpuri	27-04-2012
DR-10730* (DS-12476Y)	Maj (Ms) Kirti Sharma	09-07-2013

READ:

DR-10694Y (DS-12391H)	Maj Pramod Kumar	13-03-2012
DR-10707L (DS-12377W)	Maj Peeyush Pathak	28-02-2012
DR-10727Y (DS-12420M)	Maj Anubhav Shivpuri	27-10-2012
DR-10730Y (DS-12476Y)	Maj (Ms) Kirti Sharma	09-01-2014

GN published on 07 Feb 2015

FOR:

DR-10728F (DS-12466P)	Maj Ravi Kanth Chintala	17-04-2013
-----------------------	-------------------------	------------

READ

DR-10728F (DS-12466P)	Maj Ravi Kanth Chintala	17-10-2013
-----------------------	-------------------------	------------

GN published on 12 Sep 2015

FOR:

DR-10729K (DS-12469H)	Maj Ankur Thakral	18-05-2013
-----------------------	-------------------	------------

READ

DR-10729K (DS-12469H)	Maj Ankur Thakral	18-11-2013
-----------------------	-------------------	------------

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 88, dated 27th March 2017—

The following amendment may please be made in Part-I, Section-4 Govt of India Gazette published on 19 Dec 2015:—

FOR

Rank	Name	MR No	Date of prom
Capt	Sauvik Nandy	MR-09457-H	01 MAR 2014

READ

Rank	Name	MR No	Date of prom
Capt	Souvik Nandy	MR-09457-H	01 MAR 2014

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS(HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.05.20 12:05:57 +05'30'